



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 233 राँची, मंगलवार, 13 मार्च, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

9 मार्च, 2018

संख्या-02/न०प्रनि०/NULM/SUSV-चुनाव/82/2017-1361--पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के केंद्रीय अधिनियम-7) की धारा 36 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2005 दिनांक 5 अप्रैल, 2016 द्वारा झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 का गठन किया गया। नियमावली के क्रियान्वन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिपथ रखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 4960, दिनांक 6 सितम्बर, 2016 झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) संशोधन नियमावली, 2016 की कंडिका-2 के आलोक में सफलतापूर्वक क्रियान्वन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं :-

1. नियम 13 उपनियम (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन हेतु सम्बंधित स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है ।
2. अनुसूची 1 (नियम 14) उपनियम (3)(घ)(i) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन हेतु सम्बंधित जिले में प्रचलित आरक्षण रोज़र लागू होगा ।

नियमवाली के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
